



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

11 चैत्र, 1941 (श०)

संख्या- 297 राँची, सोमवार, 1 अप्रैल, 2019 (ई०)

---

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

-----  
अधिसूचना

07 मार्च, 2019

संख्या-14/जा०नि०-03-08/2016 का०- 2162-- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के विभाग के पत्रांक-12817, दिनांक-17.11.2012 द्वारा झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के अन्तर्गत अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) तथा पिछड़ावर्ग (अनुसूची-2) की समेकित सूची परिचारित की गई है, जिसमें पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) के क्रमांक-29 पर सोनार (सुवर्णवनिक) अंकित है।

संकल्प सं०-7088, दिनांक-19.09.2018 द्वारा अष्टलोहि कर्मकार को राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची 2) के क्रमांक 29 पर "सोनार (सुवर्ण वनिक) के साथ समावेशित किया गया है।

पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, झारखण्ड, राँची ने अपने पत्रांक- पि० व० आ०- 107/2016-58/ पि०, दिनांक-05.02.2019 द्वारा झारखण्ड राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची 2) के क्रमांक 29 पर दर्ज "अष्टलोहि कर्मकार" के रोमन लिपि के रूप में "Astalohi Karmakar" अंकित किया जाना प्रतिवेदित किया है। अतः पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) के क्रमांक-29 में दर्ज अष्टलोहि कर्मकार जाति का अंग्रेजी रूप "Astalohi Karmakar" के रूप में स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

दीपक कुमार सिन्हा,  
सरकार के अवर सचिव।

-----